

गेहूं आटा निर्यात को केंद्र की हरी झंडी

5 लाख टन निर्यात की दी अनुमति

21 जनवरी से आवेदन शुरू



नई दिल्ली, 19 जनवरी. गेहूं उत्पादक किसानों, आटा मिलों और निर्यातकों के लिए सरकार ने एक अहम और राहत भरा कदम उठाया है. तीन साल से अधिक समय बाद केंद्र सरकार ने गेहूं के आटे और उससे जुड़े उत्पादों के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था. इसके बाद से भारतीय गेहूं उत्पाद वैश्विक बाजार से लगभग बाहर हो गए थे. अब पांच लाख टन गेहूं आटे के निर्यात की अनुमति देकर

निर्यात से बाजार को कोई खतरा नहीं होगा. इस फैसले से न सिर्फ निर्यातकों को नए अवसर मिलेंगे, बल्कि प्रसंस्करण उद्योग को भी गति मिलने की उम्मीद है. हालांकि सरकार ने सख्त पात्रता शर्तें और चरणबद्ध आवेदन प्रक्रिया तय कर यह स्पष्ट कर दिया है कि घरेलू आपूर्ति और कीमतों से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा.

सरकार ने संकेत दिया है कि घरेलू स्थिति नियंत्रण में है और सीमित विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से 16 जनवरी को जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई. यह निर्णय तीन साल से अधिक के अंतराल के बाद लिया गया है, क्योंकि वर्ष 2022 में घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. अधिसूचना के अनुसार, गेहूं के आटे और उससे जुड़े उत्पादों का निर्यात सामान्य तौर पर प्रतिबंधित श्रेणी में ही रहेगा. हालांकि, मौजूदा नीतिगत शर्तों के अतिरिक्त, सरकार ने विशेष रूप से पांच लाख मीट्रिक टन तक निर्यात की अनुमति दी है.

डिस्कॉम्स ने रचा इतिहास, 2701 करोड़ का मुनाफा

नई दिल्ली, 19 जनवरी. देश के बिजली वितरण क्षेत्र के लिए यह एक ऐतिहासिक और राहत भरा संकेत है. वर्षों तक भारी घाटे, वित्तीय दबाव और संरचनात्मक समस्याओं से जूझने के बाद अब विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) मुनाफे में लौट आई हैं. वित्त वर्ष 2024-25 में देशभर की बिजली वितरण कंपनियों ने मिलकर 2,701 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है. यह उपलब्धि ऐसे समय में सामने आई है, जब यह क्षेत्र लंबे समय से ऊर्जा क्षेत्र की सबसे कमजोर कड़ी माना जाता रहा है. बीते एक दशक में डिस्कॉम्स पर बढ़ते कर्ज, तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान, सब्सिडी भुगतान में देरी और लागत वसूली की समस्याओं ने इनके वित्तीय हालात को बुरी तरह प्रभावित किया था.

एयरटेल ने 5जी नेटवर्क का किया विस्तार

3.6 करोड़ ग्राहकों को भरोसेमंद हाई-स्पीड नेटवर्क मिल रहा है

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एयरटेल के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक बाजार



काम और पढ़ाई, तथा अधिक विश्वसनीय डिजिटल भुगतान का लाभ उठा सकते हैं. इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा,

उज्जैन, सागर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, देवास, कोरबा और राजनांदगांव सहित कई प्रमुख जिलों के ग्राहक इस विस्तारित नेटवर्क से सीधे लाभान्वित होंगे. यह विस्तृत कवरेज हाई-स्पीड 5जी सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करेगा, जिससे आम लोगों, छात्रों, छोटे कारोबारियों और सरकारी संस्थानों की रोजमर्रा की डिजिटल जरूरतों को बेहतर समर्थन मिलेगा.

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए एयरटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितेश अग्रवाल ने कहा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एयरटेल के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक बाजार हैं. यह विस्तार देश के हर कोने को जोड़ने की हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि दोनों राज्य आगे भी एयरटेल के प्रमुख फोकस क्षेत्र बने रहेंगे. इनमें अपनी उपस्थिति को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एयरटेल ने उन ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क घनत्व बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निवेश किया है, जहां पहले कवरेज सीमित था. इसमें गांवों, राजमार्गों, सीमावर्ती क्षेत्रों और उन आर्थिक गलियारों में साइट्स की संख्या बढ़ाना शामिल है, जहां डिजिटल अपनाने की गति तेजी से बढ़ रही है.

अमेरिका पर 93 अरब यूरो टैरिफ लगाएगा ईयू



डावोस / ब्रसेल्स, 19 जनवरी. प्रिनलैंड को लेकर अमेरिका की टैरिफ धमकी ने यूरोप-अमेरिका संबंधों में नई दार पेटा कर दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूरोपीय संघ अब अमेरिका के खिलाफ 93 अरब यूरो तक का जवाबी टैरिफ लगाने या अमेरिकी कंपनियों की यूरोपीय बाजार में पहुंच सीमित करने पर विचार कर रहा है. यह संभावित कदम ऐसे समय सामने आया है, जब डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान दोनों पक्षों के बीच अहम बातचीत होने वाली है.

यूरोपीय संघ अमेरिका के खिलाफ कड़ा व्यापारिक रुख अपनाने की दिशा में आगे बढ़ता नजर आ रहा है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका द्वारा प्रिनलैंड को लेकर टैरिफ लगाने की धमकी के बाद यूरोपीय संघ 93 अरब यूरो तक का शुल्क वांशिंगटन पर लगाने या अमेरिकी कंपनियों को अपने बाजार में काम करने से रोकने जैसे कदमों पर गंभीरता से विचार कर रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, यूरोपीय अधिकारी संभावित जवाबी उपायों की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं ताकि अगले सप्ताह स्विट्जरलैंड के डावोस शहर में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान यूरोपीय नेताओं के पास मजबूत रणनीतिक विकल्प मौजूद हों.

चावल, चीनी, दालें मजबूत; गेहूं नरम; खाद्य तेलों में घट-बढ़

नई दिल्ली, 19 जनवरी. घरेलू बाजारों में सोमवार को चावल के औसत भाव बढ़ गये जबकि गेहूं की कीमतों में नरमी रही. चीनी और दालों के दाम भी बढ़े. खाद्य तेलों में उतार-चढ़ाव का रुख रहा. औसत दर्जे के चावल की औसत कीमत 86 रुपये बढ़कर 83.84 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गयी. गेहूं 18 रुपये टूटकर 2,857 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका. आटे की कीमत भी 24 रुपये घट गयी. दाल-दलहनों में तेजी का रुख रहा. तुअर दाल की औसत कीमत 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गयी. मसूर दाल 150 रुपये और चना दाल 144 रुपये प्रति क्विंटल मजबूत हुई. मूंग दाल 97 रुपये और उड़द दाल 38 रुपये प्रति क्विंटल महंगी हुई.

शेयर बाजार पहुंचा लाल निशाने पर 324 अंक नीचे आया सेंसेक्स

324 अंक नीचे आया सेंसेक्स

108 अंक पर टूटा निफ्टी



मुंबई, 19 जनवरी. घरेलू शेयर बाजारों में सोमवार को गिरावट रही और बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 324.17 अंक (0.39 प्रतिशत) लुढ़क कर 83,246.18 अंक पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 108.85 अंक यानी 0.42 प्रतिशत टूटकर 25,585.50 अंक पर आ गया. यह दोनों सूचकांकों का दो महीने से ज्यादा समय का निचला स्तर है. बाजार में आज काफ़ी उतार-चढ़ाव रहा. एक समय

सेंसेक्स 672 अंक गिर गया था, लेकिन बाद में इसकी गिरावट कुछ कम हुई. चौतरफा बिकवाली के बीच मझौली और छोटी कंपनियों के सूचकांक भी लाल निशाने में रहे. निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.25 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.99 प्रतिशत टूट गया. तेल एवं गैस, रियल्टी, मीडिया, रसायन, स्वास्थ्य और टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद समूहों में ज्यादा गिरावट रही. वहीं, एफएमसीजी और ऑटो सेक्टरों के सूचकांक हरे निशाने में रहे.

इंडिगो पर लगा 22.20 करोड़ का जुर्माना

सीनियर को हटाने और 50 करोड़ की बैंक गारंटी के निर्देश



नई दिल्ली, 19 जनवरी. इंडिगो एयरलाइंस के हालिया फ्लाइंट संकट को लेकर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अब तक की सबसे कड़ी कार्रवाई की है. जांच में गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद डीजीसीए ने इंडिगो पर कुल 22 करोड़ 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

इसके साथ ही एयरलाइन को 50 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी अव्यवस्थाओं को रोका जा सके और सिस्टम में दीर्घकालिक सुधार सुनिश्चित हो. डीजीसीए की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिगो की ओर से उड़ान संचालन, संकेत प्रबंधन और निष्पादक तैयारियों में गंभीर चूक हुई. आदेश के तहत 50 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी के साथ एक विशेष सुधार ढांचा तैयार किया गया है, जिसे इंडिगो सिस्टमिक रिफॉर्म एश्योरेंस स्कीम नाम दिया गया है. इसका उद्देश्य एयरलाइन के ऑपरेशनल सिस्टम को मजबूत करना और भविष्य में बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द या विलंबित होने जैसी स्थिति से बचना है. इसके अलावा डीजीसीए ने निचलान, संकेत प्रबंधन और निष्पादक तैयारियों पर 1.80 करोड़ रुपये का एकमुश्त आर्थिक जुर्माना भी लगाया है.

पीएनबी-आईआरएफसी की कमाई में उछाल

नई दिल्ली, 19 जनवरी. सरकारी स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर अपनी वित्तीय स्थिति की मजबूती साबित की है. दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही में पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड दोनों ने अपने शुद्ध लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है. यह प्रदर्शन ऐसे समय में सामने आया है, जब बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र वैश्विक अनिश्चितताओं, ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव और घरेलू मांग के दबावों का सामना कर रहा है.

2030 तक भारत बन जायेगा उच्च-मध्य आय वाला देश

नई दिल्ली, 19 जनवरी. भारत अगले दो साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और चार साल में उच्च-मध्य आय वाला देश बन जायेगा. भारतीय स्टेट बैंक की अनुसंधान इकाई एसबीआई रिसर्च की सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में यह बात कही गयी है.

यह जानकारी केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है. उन्होंने बताया कि पीएमजी ने अब तक 94 प्रतिशत मामलों में परियोजनाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर दिया है, जिससे विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण को गति मिली है.

इसमें बताया गया है कि निम्न-मध्य आय वाले देश से उच्च-मध्य आय वाले देश की श्रेणी में शामिल होने के लिए प्रति व्यक्ति 4,500 डॉलर सालाना आय का लक्ष्य हासिल करना जरूरी है. भारत जिस गति से प्रगति कर रहा है, साल 2030 तक इस मुकाम पर पहुंच जायेगा. रिपोर्ट में कहा गया है कि आजादी के बाद 62 साल में देश की प्रति व्यक्ति आय 1,000 डॉलर पर पहुंची. इसे 2,000 डॉलर पर पहुंचने में अगले 10 साल और 3,000 डॉलर पर पहुंचने में और सात साल लगे. अगले चार साल में वर्ष 2030 तक प्रति व्यक्ति आय 4,000 डॉलर तक पहुंच जायेगी और विश्व बैंक की मौजूदा परिभाषा के अनुसार भारत चीन और इंडोनेशिया के साथ उच्च-मध्य आय वाले देशों में शामिल हो जायेगा.

78 लाख करोड़ की 3,000 परियोजनाओं पर नजर

पीएमजी बना इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की रीढ़: पीयूष गोयल

500 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट्स की निगरानी



नई दिल्ली, 19 जनवरी. देश में बुनियादी ढांचे को गति देने और बड़े निवेश प्रोजेक्ट्स की अड़चनों को दूर करने में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, पीएमजी फिलहाल 78 लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 3,000 से ज्यादा केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप इस समय देशभर में 78 लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 3,000 से ज्यादा परियोजनाओं की निगरानी कर रहा है.

पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के जरिए भारत 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म' के विजन को आगे बढ़ाने में पीएमजी एक प्रभावी संस्थागत व्यवस्था के रूप में उभरा है, जो बड़े प्रोजेक्ट्स के कार्यान्वयन में आने वाली अड़चनों को समयबद्ध तरीके से दूर कर रहा है. मंत्री ने कहा कि तय समय में समस्याओं के समाधान से परियोजनाओं की गति बढ़ी है और पीएमजी अब भारत की परियोजना क्रियान्वयन व्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ बन चुका है. इसका सीधा असर निवेशकों के भरोसे और कारोबार करने में आसानी पर पड़ा है.

पीएमजी मुख्य रूप से 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक निवेश वाली परियोजनाओं की चरणबद्ध निगरानी करता है. यह नीतिगत, निष्पादकीय और अन्य व्यावहारिक अड़चनों को दूर करने में मदद करता है, ताकि प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो सकें. वर्तमान में पीएमजी 'निवेश इंडिया', उद्योग एवं आंतरिक व्यापार विभाग और वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहा है. सरकार के अनुसार, पीएमजी जिन परियोजनाओं की निगरानी करता है, वे मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे से जुड़ी होती हैं.

समाचार विशेष

संगठन को धारदार बनाएंगे आदित्य साहू

रांची. भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में संगठनात्मक नेतृत्व की कमान आदित्य साहू को सौंपकर स्पष्ट संकेत दिया है कि पार्टी अब राज्य में अपेक्षाकृत युवा, ऊर्जावान और जमीनी नेतृत्व के सहारे अपनी राजनीतिक धार को तेज करना चाहती है.

रांची. भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में संगठनात्मक नेतृत्व की कमान आदित्य साहू को सौंपकर स्पष्ट संकेत दिया है कि पार्टी अब राज्य में अपेक्षाकृत युवा, ऊर्जावान और जमीनी नेतृत्व के सहारे अपनी राजनीतिक धार को तेज करना चाहती है.

रांची. भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में संगठनात्मक नेतृत्व की कमान आदित्य साहू को सौंपकर स्पष्ट संकेत दिया है कि पार्टी अब राज्य में अपेक्षाकृत युवा, ऊर्जावान और जमीनी नेतृत्व के सहारे अपनी राजनीतिक धार को तेज करना चाहती है.

बदले हुए सामाजिक-राजनीतिक समीकरणों के अनुरूप आक्रामक विस्तार की कमी भी महसूस की गई. इसके विपरीत आदित्य साहू का राजनीतिक विकास छात्र राजनीति, मंडल और जिला स्तर के संगठनात्मक कार्यों से होकर हुआ है. यह अनुभव उन्हें कार्यकर्ताओं की वास्तविक संगठन में काम करते हुए प्रदेश अध्यक्ष पद तक पहुंचने साहू का सफर भाजपा की केंद्र आधारित राजनीति का उदाहरण है. उनका चयन केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं, बल्कि झारखंड में भाजपा की भविष्य की रणनीति का संकेत भी है. वहीं, इस चयन से ओबीसी समाज को भी साधने का प्रयास किया गया है.

झारखंड भाजपा का नेतृत्व लंबे समय तक अपेक्षाकृत वरिष्ठ और अनुभव आधारित चेहरों के हाथ में रहा है. ऐसे नेतृत्व ने संगठन को स्थिरता तो दी, लेकिन

लालू के अंदाज में राजनीति करेंगे तेज प्रताप

उग्र, बंगाल और दिल्ली एमसीडी चुनाव में उतरेंगे

पटना. चुनावी हार जीत से अप्रभावी तेज प्रताप यादव ने अब अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल का परचम पूरे देश में फहराना की सुर पकड़ लिया है.

पंचायत से लेकर निकाय और विधानसभा में भी अपनी पार्टी को उतारने के पीछे अपनी पार्टी के वजूद आंकने से ज्यादा प्राथमिकता है अपनी नई पार्टी को पहचान पूरे देश में बनाने को लेकर है. उनका हालिया बयान उनको इस चुनावी यात्रा और उनके मकसद का खुलासा भी करती है. हालांकि राज्य से बाहर तेज प्रताप का चुनाव लड़ने का यह

व्यंजना चाहते हैं तेज प्रताप? तेज प्रताप इन दिनों दो कारणों से एक खास वर्ग के बीच बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. वह है राजद सुप्रीमो लालू यादव का एमवाई समीकरण. वर्ष 2020 विधानसभा चुनाव में जो इमेज तेजस्वी यादव का बना था वह वर्ष 2025 के विधानसभा में चकनाचूर हो गया. वर्ष 2025 में तेज प्रताप को भले चुनाव सफलता नहीं मिली. लेकिन यह चर्चा चल पड़ी है कि लालू यादव के अंदाज में राजनीति तेज प्रताप ही कर सकते हैं. लालू यादव तेजस्वी यादव के बदले तेज प्रताप को राजनीतिक विरासत सौंपते तो ज्यादा सफल होते. तेज प्रताप अपने उन समर्थकों की उम्मीद को जिंदा रखने के लिए अवसर का तलाश कर रहे रहे हैं. बिहार में लालू यादव के बेटे होने का फायदा बिहार में तेज प्रताप को नहीं मिला. क्या पाठ पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में सफलता मिल जाए.

पटना. बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति और दही-चूड़ा भोज का रिश्ता पुराना रहा है. हर साल यह भोज सिर्फ ल्यूडर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके जरिए सियासी संकेत भी दिए जाते हैं. इस बार भी दही-चूड़ा भोज ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को तेज कर दिया है. खासकर कांग्रेस विधायकों की टूट को लेकर मकसद-जनशक्ति जनता पार्टी के नायक तेज प्रताप यादव ने यह घोषणा कर दी है कि अब जनशक्ति जनता पार्टी की सीमा बिहार तक ही नहीं रहेगी. इसकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनाने के लिए संगठन का विस्तार किया जाएगा. साथ ही जहां उम्मीद देखें जनशक्ति जनता पार्टी वहां होने वाले चुनाव में अपना भाग्य आजमाएगी.

पटना. बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति और दही-चूड़ा भोज का रिश्ता पुराना रहा है. हर साल यह भोज सिर्फ ल्यूडर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके जरिए सियासी संकेत भी दिए जाते हैं. इस बार भी दही-चूड़ा भोज ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को तेज कर दिया है. खासकर कांग्रेस विधायकों की टूट को लेकर मकसद-जनशक्ति जनता पार्टी के नायक तेज प्रताप यादव ने यह घोषणा कर दी है कि अब जनशक्ति जनता पार्टी की सीमा बिहार तक ही नहीं रहेगी. इसकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनाने के लिए संगठन का विस्तार किया जाएगा. साथ ही जहां उम्मीद देखें जनशक्ति जनता पार्टी वहां होने वाले चुनाव में अपना भाग्य आजमाएगी.

क्या कांग्रेस में होगी टूट?

दही-चूड़ा भोज के बहाने गरमाई राजनीति

पटना. बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति और दही-चूड़ा भोज का रिश्ता पुराना रहा है. हर साल यह भोज सिर्फ ल्यूडर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके जरिए सियासी संकेत भी दिए जाते हैं. इस बार भी दही-चूड़ा भोज ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को तेज कर दिया है. खासकर कांग्रेस विधायकों की टूट को लेकर मकसद-जनशक्ति जनता पार्टी के नायक तेज प्रताप यादव ने यह घोषणा कर दी है कि अब जनशक्ति जनता पार्टी की सीमा बिहार तक ही नहीं रहेगी. इसकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनाने के लिए संगठन का विस्तार किया जाएगा. साथ ही जहां उम्मीद देखें जनशक्ति जनता पार्टी वहां होने वाले चुनाव में अपना भाग्य आजमाएगी.

महौल और गरमा दिया. दही-चूड़ा भोज के दौरान मीडिया से बातचीत में चेतन आनंद ने कहा कि अगर कांग्रेस विधायकों से अच्छे तरीके से बातचीत की जाए तो वे जदयू में आ सकते हैं. उनके इस बयान को कांग्रेस में टूट के संकेत के तौर पर देखा जाने लगा. हालांकि, इन सभी अटकलों को कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिहार कांग्रेस के विधायकों की टूट की अफवाहें बनाना कोई नई बात नहीं है. यह बातें 2020 से लेकर 2025 तक लगातार कही जा रही हैं. उन्होंने कहा कि किसी के चाहने से कांग्रेस में टूट नहीं होने वाली है. अखिलेश सिंह ने एनडीए नेताओं पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जो भी नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं, उन्हें छपास की बीमारी है. उन्होंने कहा कि सिर्फ खबरों में बने रहने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं. इसका हकीकत से कोई लेना-देना नहीं है.

केंद्र आधारित ताकत पर फोकस

आदित्य साहू बार-बार यह दोहराते रहे हैं कि भाजपा की असली ताकत उसका समर्थित केंद्र है. गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में भाजपा की सफलता का प्रमुख कारण मजबूत बुध संरचना और प्रशिक्षित कार्यकर्ता माने जाते हैं. झारखंड में भाजपा संगठनात्मक रूप से मौजूद तो है, लेकिन कई क्षेत्रों में बुध स्तर की सक्रियता कमजोर रही है. साहू की रणनीति अन्य राज्यों के सफल मॉडल से सीख लेते हुए झारखंड में केंद्र को पुनः सक्रिय करने की है. साहू के नेतृत्व की सबसे अहम विशेषता युवा नेतृत्व को आगे लाने की मशा है. पार्टी के भीतर लंबे समय से यह चर्चा रही है कि झारखंड जैसे युवा आबादी वाले राज्य में संगठन का चेहरा अपेक्षाकृत उम्रदराज दिखाता है.

दूसरा सवाल है कि क्या सचमुच ममता बनर्जी अपने राज्य के साथ साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं? पश्चिम बंगाल के बाहर की तृणमूल कांग्रेस की राजनीति को देखें तो यह सवाल ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है. अपने राज्य यानी बंगाल की राजनीति में तो वे भाजपा के खिलाफ खूब कर लड़ती हैं और सारे उपाय करती हैं, जिससे वे भाजपा को हरा

विशेष

असम और केरल में क्या करेगी तृणमूल?

नई दिल्ली. राजनीति में आमतौर पर जो होता हुआ दिखाता है वह असल में नहीं होता है और जो होता है वह पहले से दिखाता नहीं है. तभी यह सवाल उठ रहा है कि क्या सचमुच ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के बीच वैसी ही जंग चल रही है, जैसी चलती दिख रही है?

दूसरा सवाल है कि क्या सचमुच ममता बनर्जी अपने राज्य के साथ साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं? पश्चिम बंगाल के बाहर की तृणमूल कांग्रेस की राजनीति को देखें तो यह सवाल ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है. अपने राज्य यानी बंगाल की राजनीति में तो वे भाजपा के खिलाफ खूब कर लड़ती हैं और सारे उपाय करती हैं, जिससे वे भाजपा को हरा

करती है. हालांकि राज्य से बाहर तेज प्रताप का चुनाव लड़ने का यह पहला ही मौका है. लेकिन राजद की राजनीति के आधार पर तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल को मजबूत प्रदान कर सकते हैं. अब देखिए तेज प्रताप की नई चुनावी रणनीति में किस राज्य का कोना सा चुनाव है.

पार्टी का विस्तार मुख्य मकसद-जनशक्ति जनता पार्टी के नायक तेज प्रताप यादव ने यह घोषणा कर दी है कि अब जनशक्ति जनता पार्टी की सीमा बिहार तक ही नहीं रहेगी. इसकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनाने के लिए संगठन का विस्तार किया जाएगा. साथ ही जहां उम्मीद देखें जनशक्ति जनता पार्टी वहां होने वाले चुनाव में अपना भाग्य आजमाएगी.

सकें. लेकिन बंगाल के बाहर की सारी राजनीति कांग्रेस को कमजोर करने और भाजपा की मदद करने वाली होती है. चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर जिस समय ममता बनर्जी को पार्टी को चुनाव लड़वा रहे थे उस समय गोवा में तृणमूल ने कैसी राजनीति की उसे सबने देखा. मेघालय में तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को तोड़ कर उसके लगभग विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया. कांग्रेस को उन्होंने इतना कमजोर कर दिया कि वह वहां लड़ने के लायक नहीं बची. मेघालय जैसी राजनीति उसी समय झारखंड में भी करने की कोशिश हुई थी लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिल सकी.

तभी ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी की राजनीति बंगाल में भाजपा को रोकने की है और बंगाल के बाहर बाकी राज्यों में कांग्रेस को कमजोर करने की है, जिसका फायदा भाजपा और एनडीए को मिलता है. तीन महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी ऐसी ही राजनीति करती दिख रही हैं. असम और केरल में उनकी पार्टी अकेले लड़ने की तैयारी में है, जिसका नुकसान कांग्रेस को होगा.

असम और केरल में क्या करेगी तृणमूल? सकें. लेकिन बंगाल के बाहर की सारी राजनीति कांग्रेस को कमजोर करने और भाजपा की मदद करने वाली होती है. चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर जिस समय ममता बनर्जी को पार्टी को चुनाव लड़वा रहे थे उस समय गोवा में तृणमूल ने कैसी राजनीति की उसे सबने देखा. मेघालय में तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को तोड़ कर उसके लगभग विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया. कांग्रेस को उन्होंने इतना कमजोर कर दिया कि वह वहां लड़ने के लायक नहीं बची. मेघालय जैसी राजनीति उसी समय झारखंड में भी करने की कोशिश हुई थी लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिल सकी.

तभी ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी की राजनीति बंगाल में भाजपा को रोकने की है और बंगाल के बाहर बाकी राज्यों में कांग्रेस को कमजोर करने की है, जिसका फायदा भाजपा और एनडीए को मिलता है. तीन महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी ऐसी ही राजनीति करती दिख रही हैं. असम और केरल में उनकी पार्टी अकेले लड़ने की तैयारी में है, जिसका नुकसान कांग्रेस को होगा.

कांग्रेस के भोज में नहीं शामिल हुए थे विधायक

कांग्रेस कार्यालय के दही-चूड़ा भोज में विधायकों के शामिल न होने पर भी अखिलेश सिंह ने सफाई दी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी विधायक 200 से 300 किलोमीटर दूर के इलाकों से आते हैं. कोई भी इतनी दूरी सिर्फ चूड़ा-दही खाने के लिए नहीं आता. इसे नाराजगी से जोड़ना गलत है. कुल मिलाकर इस बार का दही-चूड़ा भोज एक बार फिर बिहार की राजनीति में सियासी संदेश और बयानबाजी का मंच बन गया है. कांग्रेस में टूट की चर्चाओं और उस पर आए जवाबों ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है.